

दिनांक 10 अप्रैल, 2018 को सायं 06:05 बजे से (सायं 06:40 बजे की निर्धारित अवधि में) मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश एवं नीम ट्री मोर्निंग वाकर्स क्लब (एन.टी.एम.डब्ल्यू.सी.) संयुक्त तत्वाधान में **“चीनी कितने चमच्च”** शीर्षक पर नाटक का आयोजन किया गया।

उक्त नाटक को श्री मृदुल पाण्डेय द्वारा लिखा गया था एवं मंच पर प्रस्तुत करने हेतु श्री राघव त्रिपाठी द्वारा निर्देशित किया गया था। कुमारी आकांछा शुक्ला द्वारा रूचि- मुख्य नायिका के तौर पर, श्री मृदुल पाण्डेय द्वारा मोहित पाण्डेय - मुख्य नायक के तौर पर एवं श्री सत्यम द्विवेदी द्वारा वेटर एवं टी.टी. की भूमिका निभाई गयी। आयोजित नाटकीय मंचन ने समस्त दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया।

आयोजित किये गए नाटक **“चीनी कितने चमच्च”** के बारे में निम्नलिखित अंश इस प्रकार से है:

“आपने आज मुझे उस सच से रूबरू करवा दिया , जिसका हिस्सा हो कर भी मैं उससे अनजान था। लड़कियां देखना और फिर उनको बहाने बना कर मना कर देना मेरे लिए एक मजाक सा था . पर कभी सोच ही न सका की मेरी उस " ना " का किसी पर क्या असर होता है . पछतावे से भरे ये शब्द हिस्सा हैं “ चीनी कितने चम्मच नाटक “ के . जिसका मंचन कल कानपुर दिवस के अवसर पर मर्चेट चैम्बर हॉल में किया गया . सिर्फ दो केंद्रीय पात्रों से सजे इस नाटक के माध्यम से न सिर्फ समाज में शादी के नाम पर किये जाने वाले दिखावे पर कटाक्ष किया गया , बल्कि शादी के लिए कई बार दिखाए जाने के बाद भी जब एक लड़की नापसंद कर दी जाती है तो इसका उसके और उसके परिवार पर क्या प्रभाव पड़ता है , इसको भी दर्शाया गया।”

लगभग 35 मिनट के नाटक ने न सिर्फ दर्शकों को गुदगुदाया बल्कि बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर भी किया . **“चीनी कितने चम्मच A VERSATILE STAGE DRAMA”** को दर्शकों की खूब सराहना और तालियाँ मिली।

“चीनी कितने चम्मच A VERSATILE STAGE DRAMA” का निर्देशन श्री राघव त्रिपाठी ने किया .राघव त्रिपाठी ने इस नाटक को साहित्यकार स्व.प्रमोद त्रिपाठी को समर्पित किया . राघव त्रिपाठी ने कहा कि रंगमंच से आज के युवाओं को जोड़ा जा सके एवं कानपुर की कला एवं साहित्य को एक मंच मिल सके इसलिए ये प्रयोग किया गया है।

आयोजित नाटक का संचालन डॉ.आई.एम. रोहतगी, पूर्वअध्यक्ष, मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश एवं वरिष्ठ सदस्य, मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश एवं मर्चेट्स चैम्बर के सदस्य श्री स्वतंत्र सिंघ ने संयुक्त रूप से किया।

उपस्थित गणमान्य: उक्त नाटक में श्री जे.के. लोहिया, पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ सदस्य, मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, श्री बी.के. लाहोटी, अध्यक्ष, मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, श्री बी.एम. गर्ग, उपाध्यक्ष, मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, श्री राजिव मेहरोत्रा, सचिव, एन.टी.एम.डब्ल्यू.सी., मर्चेट्स चैम्बर तथा नीम ट्री मोर्निंग वाकर्स क्लब संस्थाओं के सदस्यगण अपने परिवारीजनों के साथ उपस्थित थे।

सधन्यवाद

मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश एवं

नीम ट्री मोर्निंग वाकर्स क्लब